

## Transliteration–Telugu

Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention  
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U  
R RR IR IRR  
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh n/G  
c ch j jh n/J  
T Th D Dh N  
t th d dh n  
p ph b bh m  
y r l L v  
S sh s h

(jn – as in jnAna)

### O rAma rAma sarvOnnata-nAgagAndhAri

In the kRti ‘O rAma rAma sarvOnnata’ – rAga nAgagAndhAri, SrI tyAgaRaja describes the prayer of prahlAda to the Lord.

- P O rAma rAma sarv(O)nnata nIk(i)puD-  
(O)ra-vancana(y)ElarA ghRNA-kara
- C1 <sup>1</sup>vEda Siramul(e)llan(A)daraNatO  
nIvE daivam(a)ni nammaga nammiti (O rAma)
- C2 <sup>2</sup>peddalaina vAri(y)oddanE satyamu  
kadd(a)ni nammitini sammatini (O rAma)
- C3 bandhu ratnamA dayA sindhu nIv(a)ni satya  
sandhuDav(a)nukoNTini rammaNTini (O rAma)
- C4 bharatu carya <sup>3</sup>saha carunitO niNDArA  
karagucu palikitivE kAcitivE (O rAma)
- C5 sati mAralu sadA <sup>4</sup>kapijucE vini sam-  
matini kaugilincina Subh(A)nana (O rAma)
- C6 munu bhakta kOTulu koniyADa nIvu  
vArala brOcinadi lEdA mariyAdA (O rAma)
- C7 I jagatini <sup>5</sup>tyAgaRajuni brOcuTak-  
(I) jAlam(i)ka tALanu(n)I vELanu (O rAma)

#### Gist

O Lord rAma! O The Most Eminent of all! O Compassionate Lord! O Best of all relations! O Auspicious Faced!

Why this partiality by You now?

1. I trusted You because all the upanishads respectfully believe that You alone are The Lord.

2. I whole-heartedly trusted that there is truth only in what great personages say.

3. I considered that You are Ocean of mercy and True to Your Word; therefore, I called You.

4. You spoke to lakshmaNa much passionately about the conduct of bharata and also protected him.

5. Listening to the words of (or about) Your wife through AnjanEya, You whole-heartedly embraced him.

6. Earlier when great devotees extolled You, You protected them; is it honourable not to do so now when I extol You?

7. At this time, I shall not forbear further this delay in protecting this tyAgarAja in this World.

#### Word-by-word Meaning

P O Lord rAma! O Lord rAma! O The Most Eminent (unnata) of all (sarva) (sarvOnnata)! Why (ElarA) this partiality (Ora-vancana) by You (nIku) now (ipuDu) (nIkupuDOravancanayElarA), O Compassionate (ghRNA-kara) Lord?

C1 I trusted (nammiti) You because all (ellatu) the upanishads – acme (Siramulu) of vEdas, respectfully (AdaraNatO) (SiramulellanAdaraNatO) believe (nammaga) that (ani) You alone (nIvE) are The Lord (daivamu) (daivamani);

O Lord rAma! O Lord rAma - the Most Eminent of all! why this partiality by You now, O Compassionate Lord?

C2 I whole-heartedly (sammatini) trusted (nammitini) that (ani) there is (kaddu) (kaddani) truth (satyamu) only with (oddanE) those (vAri) great personages (peddalaina) (peddalainavAriyoddanE) (there is truth only in what those great personages say);

O Lord rAma! O Lord rAma - the Most Eminent of all! why this partiality by You now, O Compassionate Lord?

C3 O Best (ratnamA) (literally jewel) of all relations (bandhu)! I considered (anukoNTini) that (ani) You (nIvu) (nIvani) are Ocean (sindhu) of mercy (dayA) and True to Your Word (satya-sandhuDavu) (sandhuDavanukoNTini); therefore, I called You (rammaNTini);

O Lord rAma! O Lord rAma - the Most Eminent of all! why this partiality by You now, O Compassionate Lord?

C4 Isn't it that You spoke (palikitivE) to lakshmaNa – your companion (saha cara) (carunitO) - much (niNDArA) passionately (karagucu) (literally melting) about the conduct (carya) of bharata (bharatu) and also protected (kAcitivE) him (bharata)?

O Lord rAma! O Lord rAma - the Most Eminent of all! why this partiality by You now, O Compassionate Lord?

C5 O Auspicious (Subha) Faced (Anana) (SubhAnana) who, listening (vini) always (sadA) to the words (mATalu) of (or about) Your wife (sati) through (cE) AnjanEya – born of monkey (kapiju) (kapijucE), whole-heartedly (sammatini) embraced (kaugilincina) him!

O Lord rAma! O Lord rAma - the Most Eminent of all! why this partiality by You now, O Compassionate Lord?

C6 Earlier (munu) when great (kOTulu) devotees (bhakta) extolled (koniyADa) You, didn't (lEdA) You (nIvu) protect (brOcinadi) them (vArala)? Is it honourable (mariyADa) (not to do so now when I extol You)?

O Lord rAma! O Lord rAma - the Most Eminent of all! why this partiality by You now, O Compassionate Lord?

C7 At this (I) time (vELanu), I shall not forbear (tALanu) (tALanunI) further (ika) this (I) delay (jAlamu) (jAlamika) in protecting (brOcuTaku) (brOcuTakI) this tyAgarAja (tyAgarAjuni) in this (I) World (jagatini);

O Lord rAma! O Lord rAma - the Most Eminent of all! why this partiality by You now, O Compassionate Lord?

Notes –

Variations –

<sup>4</sup> – kapijucE –kapi jUcE : kapi jUcE - is inappropriate.

References –

<sup>1</sup> – vEda Siras – upanishad are considered to be the ‘head of vEdA’ – please see discourse of kAncI mahAsvAmi -  
<http://www.kamakoti.org/hindudharma/part5/chap33.htm>

<sup>4</sup> – kapiju – AnjanEya’s parents – anjana and kEsari. Please visit the website for more information on AnjanEya –  
<http://hinduism.about.com/library/weekly/aa052801b.htm>

Comments -

This kRti forms part of dance-drama 'prahlAda bhakti vijayam'.

<sup>2</sup> – peddalu – This will refer to sage nArada who initiated prahlAda even when he was in his mother’s womb.

<sup>3</sup> – saha carya – In some books, this word has been taken to mean ‘sugrIva’. However, in other books, this has been taken to mean lakshmaNa. It was lakshmaNa who was all along with SrI rAma in the forest compared to association of sugrIva for just about year, and (2) in vAlmIki rAmAyaNa – ayOdhyA kANDa (Chapter 97) – SrI rAma speaks very highly about bharata to lakshmaNa just before arrival of bharata to the forest. The most important portion of this praise is quoted below –

ambAM ca kEkayIM rushya bharataScApriyaM vadān |  
prasAdya pitaraM SrImAn rAjyaM mE dAtumAgata: || 12 ||

“Getting angry with mother kaikEyI and speaking unkind words to her and having obtained the consent of our father, the glorious bharata has (evidently) come to offer the throne to me.”

<sup>5</sup> – tyAgarAjuni brOcuTaku – It is prahlAda speaking with the name and form of SrI tyAgarAja. This is what SrI tyAgarAja calls in many kRtis as ‘bhAva’ and ‘bhAvincu’.

## Devanagari

प. ओ राम राम स(र्वो)न्नत नी(कि)पु(डो)र-

वञ्चन(ये)लरा घृणा-कर

च1. वेद शिरमु(ले)ल(ना)दरणतो

नीवे दैव(म)नि नम्मग नम्मिति (ओ)

च2. पेद्वलैन वारि(यो)द्वने सत्यमु

- क(द्व)नि नम्मितिनि सम्मतिनि (ओ)
- च3. बन्धु रत्नमा दया सिन्धु नी(व)नि सत्य-  
सन्धुड(व)नुकोण्टिनि रम्मण्टिनि (ओ)
- च4. भरतु चर्य सह चरुनितो निण्डार  
करगुचु पलिकितिवे काचितिवे (ओ)
- च5. सति माटलु सदा कपिजुचे विनि  
सम्मतिनि कौगिलिञ्चिन शु(भा)नन (ओ)
- च6. मुनु भक्त कोटुलु कोनियाड नीवु  
वारल ब्रोचिनदि लेदा मरियादा (ओ)
- च7. ई जगतिनि त्यागराजुनि ब्रोचुट(की)  
जाल(मि)क ताळनु(नी) वेळनु (ओ)

### **English with Special Characters**

- pa. ḥ rāma rāma sa(rvō)nnata nī(ki)pu(dō)ra-  
vañcana(yē)larā ghṛṇā-kara
- ca1. vēda śiramu(le)lla(nā)daraṇatō  
nīvē daiva(ma)ni nammaga nammiti (ō)
- ca2. peddalaina vāri(yo)ddanē satyamu  
ka(dda)ni nammitini sammatini (ō)
- ca3. bandhu ratnamā dayā sindhu nī(va)ni satya-  
sandhuḍa(va)nukonṭini rammaṇṭini (ō)
- ca4. bharatu carya saha carunitō niṇḍāra  
karagucu palikitivē kācitivē (ō)
- ca5. sati māṭalu sadā kapijucē vini  
sammatini kaugiliñcina śu(bhā)nana (ō)
- ca6. munu bhakta kōṭulu koniyāḍa nīvu  
vārala brōcinadi lēdā mariyādā (ō)
- ca7. ī jagatini tyāgarājuni brōcuṭa(kī)  
jāla(mi)ka tāḷanu(nī) vēḷanu (ō)

## **Telugu**

- ప. ఓ రామ రామ స(రో)న్నత నీ(కి)పు(డో)ర-  
వజ్చున(యే)లరా ఘృణా-కర
- చ1. వేద శిరము(లె)ల్ల(నా)దరణతో  
నీవే దైవ(ము)ని నమ్మగ నమ్మితి (ఓ)
- చ2. పెద్దలైన వారి(యొ)ద్దనే సత్యము  
క(ద్ద)ని నమ్మితిని సమ్మితిని (ఓ)
- చ3. బస్తు రత్నమూ దయా సిస్తు నీ(వు)ని సత్య-  
సస్తుడ(వు)నుకొణ్ణిని రమ్మణ్ణిని (ఓ)
- చ4. భరతు చర్య సహ చరునితో నిష్టార  
కరగుచు పలికితివే కాచితివే (ఓ)
- చ5. సతి మాటలు సదా కపిజాచే విని  
సమ్మితిని కొగిలిజ్ఞిన శు(భూ)నన (ఓ)
- చ6. మును భక్త కోటులు కొనియాడ నీవు  
వారల బ్రోచినది లేదా మరియాదా (ఓ)
- చ7. ఈ జగత్తిని త్యాగరాజుని బ్రోచుట(కీ)  
జాల(మీ)క తాళను(నీ) వేళను (ఓ)

## **Tamil**

- ப. ஒ ராம ராம ஸர்(வோ)ன்னத நீ(கி)பு(டோ)ர-  
வஞ்சன(யே)லரா க்^ருணா-கர
- ச1. வேத<sup>3</sup> ஸிரமு(லெ)ல்ல(னா)த<sup>3</sup>ரணதோ  
நீவே தை<sup>3</sup>வ(ம)னி நம்மக<sup>3</sup> நம்மிதி (ஒ ராம)
- ச2. பெத<sup>3</sup>த<sup>3</sup>(லை)ன வாரி(யொ)த<sup>3</sup>த<sup>3</sup>னே ஸத்யமு  
கத<sup>3</sup>(த<sup>3</sup>)னி நம்மிதினி ஸம்மதினி (ஒ ராம)
- ச3. பந்து<sup>4</sup> ரத்னமா த<sup>3</sup>யா லிந்து<sup>4</sup> நீ(வ)னி ஸத்ய-  
ஸந்து<sup>4</sup>ட<sup>3</sup>(வ)னுகொண்டினி ரம்மண்டினி (ஒ ராம)
- ச4. ப<sup>4</sup>ரது சர்ய ஸஹ சருணிதோ நிண்டா<sup>3</sup>ர  
கரகு<sup>3</sup>ச பலிகிதிவே காசிதிவே (ஒ ராம)
- ச5. ஸதி மாடலு ஸதா<sup>3</sup> கபிஜூசே வினி  
ஸம்மதினி கெள<sup>3</sup>கி<sup>3</sup>விஞ்சின ஸ(பா<sup>4</sup>)னன (ஒ ராம)
- ச6. முனு ப<sup>4</sup>க்த கோடுலு கொனியாட<sup>3</sup> நீவு  
வாரல ப்ரோசினதி<sup>3</sup> லேதா<sup>3</sup> மரியாதா<sup>3</sup> (ஒ ராம)
- ச7. ஈ ஜக<sup>4</sup>தினி த்யாக<sup>3</sup>ராஜூனி ப்ரோசுட(கீ)  
ஜால(மி)க தாளனு(னீ) வேளனு (ஒ ராம)

ஓ இராமா! இராமா! யாவரிலுமுயர்ந்தோனே! உனக்கு  
இவ்வமயம் ஓரவஞ்சனை யேன்ய்யா, கருணாகரனே?

1. உபநிடதங்கள் யாவும், பணிவுடனே,  
நீயே கடவுளென நம்ப, (நானும்) நம்பினேன்;  
ஓ இராமா! இராமா! யாவரிலுமுயர்ந்தோனே! உனக்கு  
இவ்வமயம் ஓரவஞ்சனை யேன்ய்யா, கருணாகரனே?
2. சான்றோரிடமே மெய்ம்மை  
உண்டென, முழுமனதுடன் நம்பினேன்;  
ஓ இராமா! இராமா! யாவரிலுமுயர்ந்தோனே! உனக்கு  
இவ்வமயம் ஓரவஞ்சனை யேன்ய்யா, கருணாகரனே?
3. தலை சிறந்த சுற்றமே! கருணைக்கடல் நீயென, சொல்  
தவறாதவனெனக் கொண்டேன்; உன்னையழைத்தேன்;  
ஓ இராமா! இராமா! யாவரிலுமுயர்ந்தோனே! உனக்கு  
இவ்வமயம் ஓரவஞ்சனை யேன்ய்யா, கருணாகரனே?
4. பரதனின் நடத்தையினை, உனதுடனுறையிடம், நிரம்ப  
(மனம்) உருசிப் பகர்ந்தாயன்றோ? காத்தாயன்றோ?  
ஓ இராமா! இராமா! யாவரிலுமுயர்ந்தோனே! உனக்கு  
இவ்வமயம் ஓரவஞ்சனை யேன்ய்யா, கருணாகரனே?
5. மனைவியின் சொற்களை, எவ்வமயமும் அனுமனிடம்  
கேட்டு, நிறைமனதுடன் (அவனை) அணைத்துக்கொண்ட  
மங்கல வதனத்தோனே!  
ஓ இராமா! இராமா! யாவரிலுமுயர்ந்தோனே! உனக்கு  
இவ்வமயம் ஓரவஞ்சனை யேன்ய்யா, கருணாகரனே?
6. முன்பு உயர் தொண்டர்களுன்னைப் புகழ், நீ  
அவரைக் காத்ததில்லையா? (இப்போது நீ செய்வது)  
முறையாமோ?  
ஓ இராமா! இராமா! யாவரிலுமுயர்ந்தோனே! உனக்கு  
இவ்வமயம் ஓரவஞ்சனை யேன்ய்யா, கருணாகரனே?
7. இவ்வுலகத்தினில், தியாகராசனைக் காப்பதில்,  
இந்த தாமதத்தினை யினியும் தாளே னிப்போழ்து;  
ஓ இராமா! இராமா! யாவரிலுமுயர்ந்தோனே! உனக்கு  
இவ்வமயம் ஓரவஞ்சனை யேன்ய்யா, கருணாகரனே?

ஓரவஞ்சனை - ஓரம்பேசல்  
 சான்றோர் - நாரதரைக் குறிக்கும்  
 சான்றோரிடமே - சான்றோர் பகரும் சொற்களில்  
 உடனுறை - இலக்குவன்  
 காத்தாயன்றோ - பரதனைக்குறிக்கும்

## Kannada

ಪ. ಓ ರಾಮು ರಾಮು ಸ(ರೆಂಜ್)ನ್ನತ ನೀ(ಕ)ಪ್ಪ(ಡೋ)ರ-

വെള്ളൻ(യോ)ലരാ ഷ്ടൈ-കർ  
 ചെ. വേദ ശിരമു(ലി)ല(നാ)ദർണതോ  
     നീവേ ദീവെ(മു)നി നമ്മുഗ് നമ്മുതി (ഓ)  
 ചെ. പെട്ടേൽനെ വാരി(യോ)ഡ്രനേ സത്യമു  
     ക(ഡ്ര)നി നമ്മുതിനി സമ്മുതിനി (ഓ)  
 ചെ. ബന്ധു രത്നമൊ ദയാ സിന്ധു നീ(വ)നി സത്യ-  
     സന്ധു(വ)നുക്കൊള്ളേനി രമ്മുള്ളേനി (ഓ)  
 ചെ. ഭർത്തു ചെരു സക്ക് ചെരുനിതോ നിഞ്ഞാർ  
     കർഗ്ഗച്ചു പലിക്കിതേ (ഓ)  
 ചെ. സ്ത്രി മാടലു സദാ ക്കുറിച്ചേ വിനി  
     സമ്മുതിനി കോഗിലിജ്ഞിന ശ്രൂ(ഭാ)നന (ഓ)  
 ചെ. മുനു ഭക്തു കോണ്ടുലു കൊനിയാദ നീപ്പു  
     വാരല ബീഉചിന്ദി ലേഡാ മുരിയാദാ (ഓ)  
 ചെ. ചു ജഗതിനി തൃഖരാജുനി ബീഉചുപ്പ(കോ)  
     ജാല(മി)ക താഴനു(നീ) വേഴനു (ഓ)

## **Malayalam**

- പ. ഓ രാമ രാമ സ(രോ)ന്നത നീ(കി)പു(ഡോ)ര-  
     വഞ്ചന(യേ)ലരാ ഐസാ-കര
- ച1. വേദ ശിരമു(ലെ)ല്ല(നാ)ദർണതോ  
     നീവേ ദീവെ(മു)നി നമ്മുഗ് നമ്മുതി (ഓ)
- ച2. പെട്ടേൽ വാരി(യോ)ഡ്രനേ സത്യമു  
     ക(ഡ്ര)നി നമ്മുതിനി സമ്മുതിനി (ഓ)
- ച3. ബന്ധു രത്നമൊ ദയാ സിന്ധു നീ(വ)നി സത്യ-  
     സന്ധു(വ)നുക്കൊള്ളേനി രമ്മുള്ളേനി (ഓ)
- ച4. ഭർത്തു ചെരു സക്ക് ചെരുനിതോ നിഞ്ഞാർ  
     കർഗ്ഗച്ചു പലിക്കിതേ (ഓ)
- ച5. സതി മാടലു സദാ കപിജുചേ വിനി  
     സമ്മതിനി കോഗിലിജ്ഞിന ശ്രൂ(ഭാ)നന (ഓ)
- ച6. മുനു ഭക്തു കോണ്ടുലു കൊനിയാദ നീപ്പു  
     വാരല ബീഉചിന്ദി ലേഡാ മുരിയാദാ (ഓ)
- ച7. ഇന്ത ജഗതിനി തൃഖരാജുനി ഭേദാച്ചുട(കോ)  
     ജാല(മി)ക താളനു(നീ) വേളനു (ഓ)

## **Assamese**

- প. ও বাম বাম স(র্বো)ন্ত নী(কি)পু(ড়ো)ৰ-  
বঞ্চন(য়ে)লৰা ঘণা-কৰ
- চ১. বেদ শিৰমু(লে)ল্ল(না)দৱণতো  
নীৱে দৈৱ(ম)নি নম্বগ নম্বিতি (ও)
- চ২. পে লৈন বাবি(য়ো) নে সঅমু  
ক( )নি নম্বিতিনি সম্ভতিনি (ও)
- চ৩. বন্ধু ৰত্নমা দয়া সিংহু নী(ৱ)নি সঅ-  
সন্ধুড(ৱ)নুকোণ্টিনি বন্মণ্টিনি (ও)
- চ৪. ভৰতু চৰ্য সহ চৰণনিতো নিষাৰ  
কৰণ্তু পলিকিতিৱে কাচিতিিৱে (ও)
- চ৫. সতি মাটলু সদা কপিজুচে রিনি  
সম্ভতিনি কৌগিলিপ্তিন শ(ডা)নন (ও)
- চ৬. মুনু ভঙ্গ কোটলু কোনিয়াড নীৰু  
ৱাবল ৱোচিনদি লেদা মৰিয়াদা (ও)
- চ৭. ঈ জগতিনি আগৰাজুনি ৱোচুট(কী)  
জাল(মি)ক তালনু(নী) ৱেলনু (ও)

## **Bengali**

- প. ও রাম রাম স(র্বো)ন্ত নী(কি)পু(ড়ো)ৰ-  
বঞ্চন(য়ে)লৰা ঘণা-কৰ
- চ১. বেদ শিৰমু(লে)ল্ল(না)দৱণতো  
নীৱে দৈৱ(ম)নি নম্বগ নম্বিতি (ও)
- চ২. পে লৈন বাবি(য়ো) নে সঅমু  
ক( )নি নম্বিতিনি সম্ভতিনি (ও)
- চ৩. বন্ধু ৰত্নমা দয়া সিংহু নী(ব)নি সঅ-  
সন্ধুড(ব)নুকোণ্টিনি বন্মণ্টিনি (ও)

- ચ૪. ભરતુ ચર્ય સહ ચરુનિતો નિઓાર  
કરણુ પલિકિતિવે કાચિતિવે (૩)
- ચ૫. સતિ માટલુ સદા કપિજુચે વિનિ  
સમ્મતિનિ કૌગિલિંગન શુ(ભા)નન (૩)
- ચ૬. મુનુ ભક્ત કોટુલુ કોનિયાડ નીરુ  
વારલ બ્રોચિનદિ લેદા મરિયાદા (૩)
- ચ૭. ઈ જગતિનિ આગરાજુનિ બ્રોચુટ(કી)  
જાલ(મિ)ક તાલનુ(ની) વેળનુ (૩)

### **Gujarati**

૫. ઓ રામ રામ સ(વી)જ્ઞત ની(કિ)પુ(દી)ર-  
વર્ષયન(ધે)લરા ઘૃણા-કર
- ચ૧. વેદ શિરમુ(લો)લ્લ(ના)દરણતો  
નીવે દૈવ(મ)નિ નમ્મગ નમ્મિતિ (ઓ)
- ચ૨. પેદલૈન વારિ(ધો)દને સત્યમુ  
ક(૬)નિ નમ્મિતિનિ સમ્મતિનિ (ઓ)
- ચ૩. બન્ધુ રત્નમા દ્યા સિન્ધુ ની(વ)નિ સત્ય-  
સન્ધુડ(વ)નુકોંદિટનિ રમણિટનિ (ઓ)
- ચ૪. ભરતુ ચર્ય સહ ચરુનિતો નિએડાર  
કરગુચુ પલિકિતિવે કાચિતિવે (ઓ)
- ચ૫. સતિ માટલુ સદા કપિજુચે વિનિ  
સમ્મતિનિ કૌગિલિંગન શુ(ભા)નન (ઓ)
- ચ૬. મુનુ ભક્ત કોટુલુ કોનિયાડ નીરુ  
વારલ બ્રોચિનદિ લેદા મરિયાદા (ઓ)
- ચ૭. ઈ જગતિનિ ત્યાગરાજુનિ બ્રોચુટ(કી)  
જાલ(મિ)ક તાલનુ(ની) વેળનુ (ઓ)

### **Oriya**

૮. ઓ રામ રામ ધ(શેર્ષા)નૃષ ની(કિ)પૂ(દો)ર-  
ખિંન(દે)લરા ઘૃણા-કર

੮੧. ਖੇਡ ਸ਼ਿਰਮੂ(ਲੋ)ਲੂ(ਨਾ)ਦਰਣਤੋ  
ਨੀਅੇ ਦੇਇਸਾਨੀ ਨਮਨ ਨਮਿਤੀ (੩)
੮੨. ਪੇਇਲੈਨ ਆਰਿਯੋਹਾਇਨੇ ਸਤਿਮੂ  
ਕਇਨੀ ਨਮਿਤਿਨੀ ਸਮਤਿਨੀ (੩)
੮੩. ਬਨ੍ਹ ਰਤਮਾ ਦਯਾ ਵਿਨ੍ਹ ਨੀਅੇਨੀ ਸਤਿ-  
ਸ਼ਨ੍ਹੁਤਿਸ਼ੁਨ੍ਹੁਕੋਣ੍ਹੁ ਰਮਣ੍ਹੁ (੩)
੮੪. ਭਰਤੁ ਚੜ੍ਹ ਸਹ ਚਰੂਨਿਤੋ ਨਿਝਾਰ  
ਕਰਗੁਰੂ ਪਲਿਕਿਤਿਖੇ ਕਾਚਿਤਿਖੇ (੩)
੮੫. ਸਤਿ ਮਾਟਲ੍ਹੁ ਸਦਾ ਕਪਿਜ੍ਹੁਚੇ ਖਿਨੀ  
ਸਮਤਿਨੀ ਕੌਗਿਲਿਅਨੀ ਗੁਭਾਨਨ (੩)
੮੬. ਮੂਨ੍ਹ ਭੜ੍ਹ ਕੋਚੁਲ੍ਹੁ ਕੋਨਿਯਾਤ ਨੀਅ੍ਹੁ  
ਆਰਲ ਭ੍ਰਾਚਿਨਦਿ ਲੇਦਾ ਮਰਿਯਾਦਾ (੩)
੮੭. ਛ ਜਗਤਿਨੀ ਤਧਾਗਰਾਹ੍ਨੁਨੀ ਭ੍ਰਾਚੂਗ(ਜੀ)  
ਭਾਲ(ਮੀ)ਕ ਤਾਲਨ੍ਹੁ(ਜੀ) ਖੇਲਨ੍ਹੁ (੩)

## **Punjabi**

- ਪ. ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸ(ਰ੍ਹੈ)ਨਨਤ ਨੀ(ਕਿ)ਪੁ(ਡੈ)ਰ-  
ਵਵਚਨ(ਯੇ)ਲਰਾ ਘ੍ਰੁਣਾ-ਕਰ
- ਚ੧. ਵੇਦ ਸ਼ਿਰਮੁ(ਲੇ)ਲਲ(ਨਾ)ਦਰਣਤੋ  
ਨੀਵੇ ਦੈਵ(ਮ)ਨਿ ਨੱਮਗ ਨੱਮਿਤੀ (ੴ)
- ਚ੨. ਪੱਦਲੈਨ ਵਾਰਿ(ਯੋ)ਦਦਨੇ ਸਤਜਮੁ  
ਕ(ਦਦ)ਨਿ ਨੱਮਿਤਿਨਿ ਸੱਮਿਤਿਨਿ (ੴ)
- ਚ੩. ਬਨਧੁ ਰਤਨਮਾ ਦਯਾ ਸਿਨਧੁ ਨੀ(ਵ)ਨਿ ਸਤਜ-  
ਸਨਧੁ(ਵ)ਨੁਕੋਲਿਟਨਿ ਰੱਮਲਿਟਨਿ (ੴ)
- ਚ੪. ਭਰਤੁ ਚਰਜ ਸਹ ਚਰੁਨਿਤੋ ਨਿਲਡਾਰ  
ਕਰਗੁਚੁ ਪਲਿਕਿਤਿਵੇ ਕਾਚਿਤਿਵੇ (ੴ)

ਚ੪. ਸਤਿ ਮਾਟਲੁ ਸਦਾ ਕਪਿਜੁਚੇ ਵਿਨਿ

ਸੱਮਤਿਨਿ ਕੌਂਗਿਲਿਵਿਚਨ ਸੁ(ਭਾ)ਨਨ (ੴ)

ਚੰਦ. ਮੁਨੁ ਭਕਤ ਕੋਟੁਲੁ ਕੋਨਿਯਾਡ ਨੀਵੁ

ਵਾਰਲ ਬੋਚਿਨਦਿ ਲੇਦਾ ਮਰਿਯਾਦਾ (ੴ)

ਚ੭. ਈ ਜਗਤਿਨਿ ਤਜਾਗਰਾਜੁਨਿ ਬੋਚੁਟ(ਕੀ)

ਜਾਲ(ਮਿ)ਕ ਤਾਲਨੁ(ਨੀ) ਵੇਲਨੁ (ੴ)